



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-पी.एच.-अ.-12072023-247248
CG-PH-E-12072023-247248

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489]
No. 489]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 12, 2023/आषाढ़ 21, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 12, 2023/ASHADHA 21, 1945

पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय

पांडिच्चेरी

अधिसूचना

पुदुच्चेरी, 27 जनवरी, 2022

सं. पीयू/एलसी/संशोधन/2021-2022.—पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 (धारा 53, 1985) की धारा (27) तथा विश्वविद्यालय की संविधियों के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार विश्वविद्यालय-अकादमिक परिषद एवं विश्वविद्यालय-कार्यकारिणी परिषद के द्वारा प्रशासनिक मामलों को शासित करने वाले अध्यादेशों में संशोधन किये गये हैं और विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 44 के तहत आवश्यकता के अनुसार इसके तहत प्रकाशित हैं।

पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय के दंड एवं अनुशासनात्मक प्राधिकरण नियम (6)(v) के अंतर्गत भाग -III में संशोधन, प्रशासनिक अध्यादेश।

हमारे प्रशासनिक अध्यादेश में मौजूदा दंड नियम	हमारे प्रशासनिक अध्यादेश में प्रस्तावित दंड नियम
नियंत्रण और अपील को शासित करने वाला प्रशासनिक अध्यादेश	नियंत्रण और अपील को शासित करने वाला प्रशासनिक अध्यादेश
भाग III	भाग III
दंड एवं अनुशासनात्मक प्राधिकरण	दंड एवं अनुशासनात्मक प्राधिकरण

<p>प्रमुख दंड:</p> <p>6(v) एक निर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन के समयमान से संबंधित निचले चरण में न्यूनीकरण- आगे के निर्देशों के साथ कि- कर्मचारी ऐसे न्यूनीकरण की अवधि के दौरान वेतन वृद्धि अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर तथाकथित कर्मचारी की वेतन वृद्धि के स्थगन पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं।</p>	<p>मामूली दंड:</p> <p>6(v) बिना संचयी प्रभाव के और कर्मचारी के पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए वेतनमान के समयमान में एक चरण का निचले चरण में न्यूनीकरण।</p> <p>प्रमुख दंड:</p> <p>6(v-a) 6(v) के अलावा एक चरण द्वारा वेतन के समयमान में एक चरण का निचले चरण में न्यूनीकरण।</p>
--	--

प्रो. अमरेश सामन्तराय, कुलसचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन-III/4/असा./271/2023-24]

PONDICHERRY UNIVERSITY

PONDICHERRY

NOTIFICATION

Puducherry, the 27th January, 2022

No. PU/LC/Amendments/2021-2022.—In exercise of the powers conferred under Section 27 of the Pondicherry University Act 1985 (53 of 1985) and Statutes of the University, the following amendments have been made by the Academic Council and Executive Council of the University to the Ordinances Governing Administrative matters and published hereunder as per requirement under Section 44 of University Act.

Amendment to Part-III Penalties and Disciplinary Authorities Rule (6)(v) of the Pondicherry University, Administrative Ordinance.

Existing penalty Rule in our Administrative Ordinance	Proposed penalty Rule in our administrative Ordinance
<p>The Administrative Ordinance governing the control and appeal</p> <p style="text-align: center;">Part III Penalties and Disciplinary Authorities</p> <p>Major Penalties: 6(v) Reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the further increment of his pay.</p>	<p>The Administrative Ordinance governing the control and appeal</p> <p style="text-align: center;">Part III Penalties and Disciplinary Authorities</p> <p>Minor Penalties: 6(v) Reduction to a lower stage in the time-scale of pay by one stage for a period not exceeding three years, without cumulative effect and not adversely affecting his pension.</p> <p>Major Penalties: 6(v - a) Reduction to a lower stage in the time-scale of pay by one stage other than 6 (V)</p>

Prof. AMARESH SAMANTARAYA, REGISTRAR (i/c)

[ADVT.-III/4/Ety./271/2023-24]